

July 7, 2022

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001

BSE - 500495

Dear Sir/ Madam,

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,

Bandra East, Mumbai – 400051

NSE - ESCORTS

Sub: Newspaper Advertisements – Postal Ballot Notice/ Electronic Voting (E-voting)

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisements, regarding Postal Ballot Notice/ E-voting dated July 6, 2022 in the newspapers i.e. Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) dated July 7, 2022.

The above is for your kind information and records.

Thanking You, Yours faithfully,

For Escorts Kubota Limited

Satyendra Chauhan

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As Above

Note: The Equity Shares of the Company were listed on the Delhi Stock Exchange Limited (DSE). However, DSE has been de-recognised and allowed to exit as a stock exchange by SEBI by way of SEBIs Order No. WTM/ SR/ SEBI/ MRD-DSA/ 04/ 01/ 2017 dated 23 January 2017. For avoidance of doubt, the securities of the Company are not listed on DSE owing to DSE having been de-recognised by SEBI.

Samtel Color Limited (In Liquidation) Liquidator: Mr. Sanjay Gupta Liquidator Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash I, New Delhi -110048 E-Auction- Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date and Time of E-Auction: 29th July 2022 at 3.00 pm to 5.00 pm (With unlimited extension of 5 minutes each) Last date of submission of EMD: 28th July, 2022 Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide order dated July 04, 2018. The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform https://aaa.auctiontiger.net Block Reserve Price EMD Amount Incrementa (In Rs.) (In Rs.) Value(In Rs.) Factory Land & Building (65.023 Acres): Village Chhappraula, main Ghaziabad Dadri known as Bulandshahar Road, Ghaziabad. (Total land area admeasuring to 65.023 acres), comprising of 3 different following plots:-126 Crores | 6.30 Crore | 50 lakhs a) 12.50 Acres-Freehold b) 41.093 Acres Leasehold rights, leased by GNIDA (Greater Noida Industrial Development c) **11.43 Acres Leasehold rights of the parcel of the land, which is leased by Governor of

*Note: The Lease of parcel of land admeasuring 11.43 acres got expired on 8th October 2020. The Liquidator has taken the steps for its renewal from the appropriate authorities. The detailed terms and condition of the E Auction are mentioned in the E Auction Process Information Document. Terms & Conditions of the auction are as under

I.E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" throughapprove service provider M/S e-procurement Technologies Limited (Auction Tiger)

The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website https://insolvencyandbankruptcy.in Contact: Mr. Ra Kumar at +91 8800865284 (On going to the link https://insolvencyandbankruptcy.in interested bidders will have to search for the mentioned company by using either one of the two options, (i) Company's name (Samtel Color Limited), or by, (ii) State and property type) 3.The intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposit (EMD) amount either through DD/NEFT/RTGS in the Account of "Samtel Color Limited Liquidation AC", Account No.: 0012894239, Kotak Mahindra Bank, Branch: C-78 Malviya Nagar Delhi, New Delhi-110017, IFSC Code KKBK0000194, or through DDdrawn on any Scheduled Bank in the name of "Samtel Color Limited- In Liquidation AC" or give a Bank Guarantee for the EMD Amount as per Format A or Format B as given in the

4. The EMD of the Successful Bidder shall be retained towards part sale consideration and The EMD of unsuccessful bidders shall be refunded. . The Liquidator can retain the EMD of H2 bidder too The EMD shall not bear any interest. The Liquidator will issue a Lette of Intent (LOI) to the Successful Bidder and the Successful Bidder shall have to deposit the balance amount (Successful Bid Amoun) EMD Amount) within 30 days on issuance of the LOI by the Liquidator

5.Default in deposit of the balance amount by the successful bidder within the time limit as mentioned in the LOI would enta forfeiture of the entire amount deposited (EMD + Any Other Amount) by the Successful Bidder. In such case, the Liquidator would have right to invite the H2 bidder to become successful Bidder

6.The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e-Auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof. All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the website of AAA Insolvency Professionals LLP i.

https://insolvencyandbankruptcy.in/ and from the E-Auction Process Document, prior to submission of EMD and participation in the process. The Liquidator can be contacted on samtel@aaainsolvency.com.

pre-paid business reply has not been sent to the shareholders for this Postal Ballot.

shareholders as on cut-off date.

provided in the Notice.

and transparent Manner.

All the members are informed that:

further clarifications.

Particulars

Remote e-Voting:

S. No.

Place: Faridabad

Date: July 6, 2022

Date: 06-07-2022, Place: New Delhi

financialexp.epap.in

(a)

on the website of KFin https://evoting.kfintech.com.

Place: New Delhi Date: 07.07.2022

Sanjay Gupta Liquidator in the matter of Samtel Color Limited IBBI (Regn. No- IBBI/IPA-001/IP-00117/2017-18/10252) Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash I, New Delhi -110048 Email:samtel@aaainsolvency.com, sanjaygupta@aaainsolvency.com Contact Person: 91-8800865284 (Mr. Raj Kumar and Mr. PuneetSachdeva)

Kuboto

Escorts Kubota Limited

ESCORTS KUBOTA LIMITED

(Formerly Escorts Limited)

CIN: L74899HR1944PLC039088

Regd. Office: 15/5, Mathura Road, Faridabad - 121003, Haryana

Phone: 0129-2250222, Fax: 0129-2250060 | E-mail: corpsl@escorts.co.in | Website: www.escortsgroup.com

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

Pursuant to Sections 108 and 110 of Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under and read with the General

Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated

June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31,

2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 08, 2021 and General

Circular No. 3/2022 dated May 05, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars), Regulation 44 of the SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) and other applicable laws and

regulations, the approval of Shareholders vide Postal Ballot Notice (Notice) dated July 6, 2022 is being sought through e-voting

process (e-voting) to transact the business as set forth in the Notice. Thus, hard copy of Notice along with postal ballot form and

Pursuant to the MCA Circulars and the provision of the Act, the Notice along with the details of User IDs and passwords have been

sent by e-mails on Wednesday, July 6, 2022 through the Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e. KFin

Technologies Limited (KFin) only to the members who have registered their e-mail IDs as on the cut-off date i.e. Friday,

In Compliance with Regulation 44 of Listing Regulations as amended and pursuant to Section 108 and other applicable provision

of the Act read with the related Rules and MCA Circulars, members holding shares as on cut-off date are entitled to vote only

through e-voting and voting rights will be reckoned by paid-up capital value of the equity shares registered in the name of

The Company has decided to avail the services of KFin for providing e-voting facility to all its members. The manner of voting by

members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their e-mail ids is

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Jayant Gupta, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS -

7288 and Certificate of Practice No. 9738) as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot only through e-voting Process in a fair

The results of the Postal Ballot shall be declared on or before Tuesday, August 9, 2022 and communicated the same to the Stock

Exchange(s), Registrar and Share Transfer Agent and shall be displayed on the Company's website www.escortsgroup.com and

Once the vote on the resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; and

depositories as on the cut-off date i.e. July 1, 2022 only shall be entitled to avail the facility of e-voting.

https://www.escortsgroup.com/investors/usefull-links/forms.html with details of folio number.

Date and time of commencement of voting through electronic means

Voting shall be not allowed beyond the date and time mentioned above.

Members are requested to refer the Notice for e-voting procedures and take note of the following information:

A person whose name is recorded in the Register of Members or in Register of Beneficial Owner maintained by the

In case of any query and/ or grievance, in respect of voting by electronic means, members may refer to the Help & Frequently

Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the download section of

https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx (KFin Website) or contact Mr. Sankara Gokavarapu, Manager (Unit:

Escorts Kubota Limited), KFin Technologies Limited, Selenium Building, Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial

District, Nanakramguda, Hyderabad – 500032.; Toll Free No.:1800 309 4001; E-mail: einward.ris@kfintech.com for any

Members holding shares in physical mode, who have not registered/ updated their e-mail addresses with the RTA, are

requested to register/ update the same by clicking on http://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx or

by submitting the Form ISR-1 and other relevant forms available on Company's website at

The Postal Ballot Notice can also be downloaded from the website of the Company

https://www.escortsgroup.com/investors/overview.html or the website of KFin https://evoting.kfintech.com/public/ballotform.aspx.

July 1, 2022. Aperson who is not a member as on the cut-off date is requested to treat this Notice for information purpose only.

NRAI slams govt's new norms on service charges

SLAMMING THE NEW guidelines issued by the Central Consumer Protection Authority (CCPA) on service charges, the National Restaurant Association of India (NRAI) on Wednesday said that the latest directives have once again created unnecessary confusion among the consumers, leading to disruption in smooth business operations of restaurants.

Earlier this week, the CCPA barred hotels and restaurants from levying service charges automatically or by default on food bills and allowed customers to file complaints in case the directives issued by it are violated. It also furnished guidelines for preventing unfair trade practices and violation of consumer rights on levying of service charges.

Restaurants and hotels generally levy a service charge of 10% on the food bill. The new guidelines prevent hotels and restaurants from collecting service charges by any other name. They will now have to inform the consumer that the service charge is voluntary, optional and at the consumer's discretion.

"Through these repeated guidelines, there is an attempt to start a campaign against this restaurant industry practice (of collecting service charge) without any legal basis. It is also relevant to state that extra charges are being levied by many other industries, including some government agencies. However, the guidelines are issued only for the restaurant industry," NRAI said in a statement.

—FE BUREAU/NEW DELHI



ICICI SECURITIES REPORT

Bharti, VIL to see

slower revenue

growth in Q1

FE BUREAU

New Delhi, July 6

a report by ICICI Securities said.

expected to add 5 million sub-

scribers during Q1 after report-

ing a decline for the past three

quarters. The telco will also ben-

efit from the hikes because it has

a higher proportion of long

validity recharge users. "Mobile

revenue growth for Bharti is

estimated at 1.6% quarter-on-

quarter (q-o-q), while VIL's will

grow only 0.6% and RJio's rev-

enue will be up 3.3%," ICICI said.

O1 FY23E would be a muted

quarter for telcos with sub-

scribers declining for Airtel

(down 3 million) and VIL

mn)/VIL (+1 mn) again will be

muted due to lower smart-

phone sales. However, the aver-

age revenue per user (Arpu) will

show growth of 2-4% and will

be aided by one additional day,

some benefit of tariff hike

taken in Dec'21 and some pre-

miumisation (though it would

be lower vs earlier quarters).

RJio will have the highest

growth in Arpu, up 4% a-o-a to

"4G net add for Bharti (+3

(down 4 million).

As per the research firm,



₹174. Bharti's Arpu will grow

Another report by Edelweiss said the telecom operators would report Q1 FY23 revenue growth of 1-5% q-o-q, largely led by Arpu improvement. It further said the subscriber shift from weak to strong operators would continue.



by 3.1% to ₹184, and VIL's by 2% to ₹126," the report said.

On the 5G spectrum auction, Edelweiss said: "We expect telecom operators to stagger their 5G spectrum purchases due to sufficient spectrum availability and lack of ecosystem. Consequently, the balance sheet commitment could be limited."









"We came from being an underdog company to being the market leader and we're only going to get better from here. Fire-Boltt is planning to expand operations to the US, Europe, and Africa as these are promising markets for us. We will also expand our business to other countries soon and have already set up our local teams in multi-



TUSHAR GOENKA Bengaluru, July 6

AFTER ITS RECENT launch in Dubai, bootstrapped wearable watchmaker Fire-Boltt plans to take its operations to the US, Europe and Africa within the next six months. Back home, the company also aims to raise its market share to 30% by the end of this financial year, its cofounders Arnav and Aayushi Kishore told FE.

Fire-Boltt sets

In Q1 2022, Fire-Boltt became the leader with a market share of 24.6% in the wearables watch category, up from 2.9% in Q1 2021. That customer inflow came primarily from its major peers like Noise which saw its market share decline to 23.4% from 27%, boAt who also saw a fall to 15.1% from 22.1% and other companies whose share dropped to 36.9% from 48% on a year-on-year (y-o-y) basis during the same period, data from International Data Corporation (IDC) showed.

ple regions. The aim is to grow 5X of our India business from these international markets," said Arnav Kishore, co-founder and CEO, Fire-Boltt.

Explaining the reason behind the company's rise, Upasana Joshi, principal analyst, wearables, IDC India said, Fire-Boltt "has strong backing from Savex — which is an established and well renowned national distributor (ND) for brands like Samsung, dealing in a variety of electronic devices like smartphones and tablets. Thus, establishing



our business to other countries soon and have already set up our local teams in multiple regions. The aim is to grow 5X of our India business from these international markets

ARNAV KISHORE, CO-FOUNDER & CEO, FIRE-BOLTT

strong footholds in the offline distribution. They (Fire-Boltt) have had multiple launches in Q1 2022. Aggressive marketing, strong promotions and competitive pricing helped the brand to lead in O1 2022."

Fire-Boltt intends to sell 12 million units (MU) in FY23, a 380% increase from the total of 2.5 MU it sold in FY22. So far, it has sold 3 MU in the first two quarters of this fiscal year, the company said.

Abulk of those products are currently manufactured in China, with some contribution from Vietnam and others, but within the next three months, 50% of its manufacturing base will move to India, CEO Kishore said. The company expects no major change in its price points from that shift.

Currently, its website (direct to consumer), e-commerce platforms like Amazon and Flipkart and offline retailers, account for roughly 10%, 40% and 50% of its sales, respectively.

Tata Chem committed to cut carbon emissions by 30%

TATA CHEMICALS IS focused on sustainability and committed to reduce its carbon emission by 30% by 2030, Tata Chemicals chairman N Chandrasekaran said on Wednesday.

"The company is also focused on sustainability and we are leveraging the whole sustainability movement to focus increasingly on green chemistry,embracing circularity,carbon reduction and biodiversity," Chandrasekaran said at Tata Chemicals 83rd Annual General Meeting (AGM) virtually.

He said the company is

committed to a science-based target initiative with a goal of reducing its carbon emission by 30% by 2030. "Our newly commissioned carbon capture utilisation facility in the UK is one such initiative in this direction," he said.

The company is focused on to grow the key products and scale up substantially and deleverage all the debt in all the international operations and accelerate the commitment towards sustainability by adopting green chemistry, Chandrasekaran added.

Titan's sales

nearly triple

in April-June

TATA GROUP FIRM Titan

on Wednesday said its sales

in the April-June quarter were up nearly threefold on ayear-on-year basis, helped

by a low base of the Covid-

19 impacted quarter in the

last year. "Sales in Q1FY23 grew 205% YoY on a low

base and clocked 3-year

CAGR of 20.5% over

O1FY20,"Titan said.While. its jewellery division

reported 207% growth

and added 19 new stores

during the quarter. —PTI

P.B.No.165, 5-9-194, Chirag Ali Lane, HYDERABAD - 500001. NOTICE TO SHARE HOLDERS It is hereby notified that the 66th Annual General Meeting of the Shareholders of ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL CORPORATION will be held at 10.30 a.m., on Friday the 29th July,2022, at the Head Office of 2022 and the Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2022, together with the Report of the Board of Directors and the Report of the Auditors.

ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL CORPORATION

the Corporation, 5-9-194, Chirag Ali Lane, Hyderabad - 500001, Telangana to transact the following business: To receive, consider and adopt the Balance Sheet as at 31st March,

2. To consider the appointment of M/s Anjaneyulu & Co., Chartered Accountants, #30, Bhagyalakshmi Nagar, Gandhi Nagar Hyderabad-500 080 as Statutory Auditors to audit the accounts of the Corporation for the F.Y.2022-23 in terms of Section 37(1) of the State Financial Corporations Act, 1951.

To declare dividend on equity shares

Place: Vijayawada Date: 06-07-2022

N.B.:

For and on behalf of the Board MANAGING DIRECTOR

 The Share Transfer Book and Register of members of the Corporation will be closed from 14.07.2022 to 29.07.2022 (both days inclusive) Shareholders are requested to intimate the Corporation the change of address, if any, immediately, The Board of Directors have recommended a dividend of 2% (Rs. 2.00 per

equity share) on paid up equity share capital for the financial year 2021-22. A member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself, but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. The proxy form, duly stamped and executed, must reach the Asst. General Manager(F&A)

Head Office of the Corporation not less than two clear days before the date fixed for the Meeting. The list of shareholders is available at the Head Office of the Corporation for purchase at Rs.50/- per copy.

Canara Bank A Government of India Undertaking गिर्विडकेटबेक SyndicateBank Possession Notice [Section 13(4)]

Regional Office: House No. 56, Budh Vihar Part - A, Tara Mandal, Gorakhpur-273016

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the CANARA BANK under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with the Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule 2002, issued a Demand Notice on the date mentioned against each account (details of which have been mentioned hereunder) calling upon the borrower to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

SI. No.		Description of the Immovable Property	Outstanding Amount	Date of Demand Notice Date of Possession Notice	
	Borrower- M/s Shilendra All that part and parcel of the property		Rs.	24.08.2021	
	Pratap Singh S/o Late Ram Shankar Singh House No. 427/B Pandey Colony, Inner Lane Opposite Ustav Marriage	consisting of House No. 427/B, Arazi No. 56, Mauza-Mirzapur Urf Betiahata, Pandey Colony, Gorakhpur-273001 Bounded- North: Road thereafter House of Dr. A.K. Srivastava, South: Land of Sri Ram Murti Dubey, East: House of Others, West: House of Late Ram Ugrah Lal.	+ Other Charges thereon	04.07.2022	

undersigned has taken the possession of the property described here in above in exercise of powers conferred on him/her under section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rule on the date mentioned above The Borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property & any dealings

with the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount and interest mentioned above. The borrower's attention is invited to provisions of section 13(8) of the Act, in respect of time available to redeem the Authorised Officer, Canara Bank Date: 07.07.2022 Place: Gorakhpur

ADITYA BIRLA

बैंक ऑफ़ बड़ोदा Bank of Baroda ED DENK

Date of Completion of dispatch of Postal Ballot Notice

Date and time of end of voting through electronic means

Branch - ROSARB, East Delhi [Address- 8718, First Floor, DB Gupta Marg, Ramnagar, Paharganj, New Delhi 110055, e-mail - SAREDL@bankofbaroda.co.in

By the order of the Board

Satyendra Chauhan

For Escorts Kubota Limited

[Abridged Sale Notice for publication in News Papers for Auction conducted on e-Bkray portal]

Sale Notice for Sale of Immovable Properties

ANNEXURE-A

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

read with proviso to Rule 6 (2) & 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s), Mortgagor (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis for recovery of dues in below mentioned account/s. The details of Borrower/s/Mortgagor/Guarantor/s/Secured Asset/s/Dues/Reserve Price/e-Auction date & Time, EMD and Bid Increase Amount are mentioned below -

Sr. No.	Name & address of Borrower/s / Guarantor/ Mortgagors	Give short description of the immovable property with known encumbrances, if any (Mortgaged by Bank of Baroda)	Total Dues	Start Time to	2. Earnest Money Deposit (EMD)- Rs 3. Bid Increase Amount-Rs.	Possession (Constructive /Physical)	Inspection date & Time.
(8)	Kumar Pandey, Guarantor- Mr. Lalit Kalra Address- Chamber No. 103-6/79, WEA Guardwara Boad, Karol Bag, New	Equitable Mortgage of Second Floor without roof rights, part of free hold built up property bearing Municipal No. WZ-668/25-A (Old No. 18-A), Area measuring 66 Sq. Yds. Out of Khasra No. 40/1 and 41/5/3, Village Shakur pur, Sri Nagar Extension, Shakur Basti, Delhi-110034	eighty five Lakh Ninety Eight thousand Three	at from 11.00 AM to 4.00 PM	1. Reserve Price - Rs. 26,20,000/- 2. EMD - Rs. 2,62,000.00 and 3. Increase amount Rs. 50,000.00		25-07-2022 10.00 AM to 02.00 PM
	For detailed terms and o	conditions of sale, please refer/visit to the website link	https://www.bankofbar	oda in/e-auction h	tm and https://iba	ni in	

Also, prospective bidders may contact the Authorised officer on Tel No/ Mobile- 7275805187.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY IS AS UNDER Description of Immovable property (Properties Mortgaged): All Piece & Parcel Ward No. 10, Krishan Colony, Nr. Milap Hotel Gohana, Sonipat, Panipat Haryana-131 303 (Khewat No. 2039/2039, Khata No. 2393, Min Killa No. 208/24 (4-8) Abadi Krishna Nagar, Inside MC Limit Gohana, Sonipat-131 303

Haryana & ❖ Bounded by:- ★ East: Other Property; ★ West: Street; ★ North: Other Property; ★ South: Street. **Authorised Officer ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED**

ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED

Goregaon (East) Mumbai-400 063. Maharashtra.

362 266 and Corporate office at 12th Floor, R Tech Park, Ninon Complex, Near Hub Mall, Goregaon (East) Mumbai-400 063, (hereinafte

referred to as "ABFL") and in exercise of the powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement

Rule, 2002 issued a Demand Notice dated 06th April 2022. Calling upon 1. Late Sh. Ramratan (Through its Legal Hirers), 2. Late Sh. Dhirendra

(Through its Legal Hirers) S/o. - Late Sh. Ramratan 3. Ms. Ranjana S/W/D/H/o. Late Sh. Ramratan to repay the amount mentioned in the

notice being ₹ 35,57,288.04 (Rs. Thirty Five Lakh Fifty Seven Thousand Two Hundred Eighty Eight and Four Paisa Only) along wit

The borrower / Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the

undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) o

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property wil be subject to the charge of "ABFL" for an amount ₹ 35,57,288.04 (Rs. Thirty Five Lakh Fifty Seven Thousand Two Hundred Eighty Eight and Four Paisa Only) and interest other charges thereon 17th March 2022. "The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, If the borrower clears the dues of the "ABFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "ABFL" and no further step shall be taken by

interest as on 17th March 2022. Within 60 days from the date of receipt of the said notice vide Loan No. ABFLPNTDSB0000118758.

Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 1st July, 2022.

Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat - 362266.

Corporate Office: 12th Floor, R Teck Park, Nirlon Complex, Near Hub Mall

New Delhi

Place: Sonipat, Haryana

Date: 07.07.2022

"ABFL" for transfer or sale of the secured assets.

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING POSSESSION NOTICE [SEE RULE 8 (1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002] Whereas, the Authorized officer of Aditya Birla Finance Limited, a Non Banking Finance Company (duly registered with Reserve Banking Finance Company) of India) under the provision of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 OF 2002) (hereinafter referred to as "SARFAESI Act, 2002") having its Registered Office at: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat

1 Pagarya Price Chatus of December

Schedule

Wednesday, July 6, 2022

Thursday, July 7, 2022 | 09:00 A.M. IST

Friday, August 5, 2022 | 05:00 P.M. IST

Company Secretary & Compliance Officer

"APPENDIX- IV-A [See proviso to Rule 6 (2) & 8 (6)]

			Liid Time	Amount-Rs.	ASK E		
y, Guarantor- Mr. Lalit - Chamber No. 103-6/79,		eighty five Lakh Ninety	at from 11.00 AM to 4.00 PM	1. Reserve Price - Rs. 26,20,000/- 2. EMD - Rs. 2,62,000.00 and 3. Increase amount Rs. 50,000.00	3	25-07-2022 10.00 AM to 02.00 PM	
For detailed terms and conditions of sale, please refer/visit to the website link https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm and https://ibapi.in.							

Name-Manish Prakash Pandey, Authorised Officer (Bank of Baroda)

(रु. लाखों में

आसियान छात्रवृत्ति योजना के तहत अब तक 65 विद्यार्थियों का चयन

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 6 जुलाई।

साथ लिखें पत्रकार'

उत्तराखंड विधानसभा की

अध्यक्ष ऋतु भूषण खंड्री ने बुधवार

को कहा कि पत्रकारों को

सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ

पत्रकारिता करनी चाहिए। क्योंकि

पत्रकारों द्वारा लिखी गई खबर का

असर देश और दुनिया तक होता है।

वे हरिद्वार में नेशनल यूनियन आफ

जर्नलिस्ट इंडिया जनपद इकाई

हरिद्वार के शपथ ग्रहण समारोह में

बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि

समस्याओं का निराकरण करना

पत्रकारों का कर्तव्य होता है लेकिन

सकारात्मक सोच का होना नितांत

आवश्यक है। इसके अभाव में

स्थिति बिगड सकती है। उन्होंने कहा

पत्रकारों को स्थानीय प्रतिभाओं को

प्रोत्साहित करने का भी प्रयास करना

चाहिए कार्यक्रम में मुख्य वक्ता

पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य

बालकृष्ण ने कहा कि पत्रकारों का

बात को छोटी करना पत्रकारों के

बाएं हाथ का काम है। उन्होंने कहा

कि विषमताओं में मार्ग दिखाने का

काय पत्रकार ही करता है। पत्रकारों

को समाज की समस्याओं के

निराकरण के साथ समाज की

उपलब्धियों को भी प्रकाशित करने

PUBLIC NOTICE

2627 measuring 82.50 Sq. Mtrs. Sector 46,

Gurugram in respect of 100% share upon the

Late Sh. JAGDISH PRASAD GUPTA who was

the owner of subject cited property to the extent

of 100% as per records has died on 19/08/2017

and had registered Will dated 30/04/2014

bearing registration no 378 in Book no 3 Vol no

3516 on page no 179 to 184 registered on

02/07/2014 at Sub Registrar SR- IV - Seelampur

Delhi in favour of Mrs BIMLA GUPTA W/o Late

Sh. JAGDISH PRASAD GUPTA R/o C-2/182

Now Mrs BIMLA GUPTA, intend to apply for the

transfer of the above said plot in her favour being

If any person is having objection against the

transfer of the above said plot, he/she can

submit objection in writing to the Estate Officer-II

Huda Sector 34 Gurugram Haryana along with

sporting document with in 30 days from the date

of publication of this notice. Otherwise the state

Officers may sanction mutation of the property

as per HUDA policy and may not entertain

Legal heir: Mrs BIMLA GUPTA

Sector 34, Gurugram.

उधारकर्ता का नाम धारा 13(2) के तहत मांग

on behalf of state officer-II HUDA,

YAMUNA VIHAR DELHI-110053.

the legal heir.

l subsequent claim, if any,

death of Late Sh. JAGDISH PRASAD GUPTA.

छोटी बात को बड़ी और बड़ी

प्रभाव पूरी दुनिया में है।

पर ध्यान देना चाहिए।

जनसत्ता सवाददाता

देहरादून, 6 जुलाई।

आसियान देशों के मेधावी विद्यार्थियों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आइआइटी) में पीएचडी करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की भारत की योजना के तहत पिछले करीब तीन वर्षो में 65 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

राज्यसभा सदस्य विनय सहस्रबुद्धे की अध्यक्षता वाली शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग ने समिति को यह जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार समिति को बताया गया है कि अब तक तीन चरण में इस योजना के तहत 65 विद्यार्थियों का चयन किया गया है और वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इसमें से 35 विद्यार्थी आनलाइन माध्यम से जुड़े

हैं। इसमें बताया गया है कि इसके अलावा अन्य विद्यार्थियों ने नामांकन के बाद इसमें शामिल होना स्थगित कर दिया अथवा छोड दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान देशों और भारत के लोगों के बीच संपर्क एवं सहयोग बढ़ाने की पहल के तहत आसियान छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की थी।

लोगों को रखना बाहते हैं।

इसके बाद 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के तहत आसियान देशों विद्यार्थियों को देश में पीएचडी 1.000

फॉर्म नं. यूआएसी—2 अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत पंजीकरण के बारे में सूचना का विद्यापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 374(ख) और (पंजीकरण हेतु अधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में) एतदहारा सचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, दिल्ली में रजिस्ट्रार को एक आवेदन किया गया है कि ई-सोशियल, एक साझेदारी कर्म को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत शेयरों द्वारा कम्पनी लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया जाए

कंपनी का मूल उद्देश्य निम्न प्रकार से है:--टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म के एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना और उन लोगों की सहायता करना जो रोजगार या कार्य अवसर की तलाश में हैं और जो ऐसे लोगा की तलाश में है जो काम करने का अवसर तलाश रहे हैं, दुनिया में कहीं भी एक-दूसरे को दूंडना और खोजना लेकिन किसी भी तरह से किसी भी पक्ष की प्रमाणिकता के लिए जिम्मेदार नहीं हों ये और लेनदेन में शामिल नहीं हों ये क्योंकि यह कार्यकलायों के दावरे से बाहर है।

द्निया घर में लोगों को उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक या पेशेवर जरूरतों के लिए एक दूसरे को खोजने में मदद करने हेतू एक टेक्नोलॉजी मंच आत्म-विकास, व्यक्तियत, पेशेवर और सामाजिक निर्णय सहायता, वैश्विक भर्ती, सामाजिककरण, वैश्विक व्यापार को सीखना, जोड़ना, वैश्विक पेशेवर, वैश्विक

कौशल बाजार के लिए एक टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म के रूप में कार्य प्रदर्शन करना जहां कुशल लोग अपनी सेवाओं की पेशकश कर सकते हैं और जो बाहते हैं उन्हें संगठनों को एवजार तकनीक से सज्जित करना जो व्यावसायिक निर्णय लेने में मेटाडेटा का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है. संगठनों को उनकी व्यावसायिक

जरूरतों को पूरा करने के लिए ढेटा प्रदान करना, उन उपयोगकर्ताओं को एक ऑनलाइन गार्केटप्लेस, एक डिजिटल गुद्रा प्रदान करना जिस पर सरकार द्वारा स्पन्ट नियम हैं। नौकरी की जरूरत वालों, फीलांसर्स, सलाहकारों, पेशेवरों, वेकेदारों, सेवा प्रदाताओं को ऐसे लोगों, कंपनियों, संगठनों को दूढने में सहायता करना जो ऐसे

सामान्य हितों और कार्यकलापों से जुड़ने में लोगों की सहायता करना और उनके युड़नैस स्कोर को विकसित करने के लिए उनके समुदाय से फीड़बैंक लेने में प्लेटफार्म का उपयोग करने के लिए सदस्यता प्राप्त करने हेतु कभी भी किसी भी पक्ष से कोई कमीशन या कोई लेनदेन शुल्क नहीं लेना क्यों कि प्लेटफार्ग पर उपयोगकर्ताओं की प्रमाणिकता को सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है। कंपनी लपयोगकर्ताओं के बीच लेनदेन के संबंध में किसी भी विवाद में शामिल नहीं होगी क्वोंकि प्लेटफांच पर कोई लेनदेन नहीं होता है। हम केवल खोज की

सकिया प्रदान कर रहे हैं और किसी भी लेनदेन में शामिल नहीं हैं।

उपयोगकर्ताओं को उनके स्वास्थ्य, धन और मावनात्मक मलाई सहित अपने कॅरियर, पेशेवर, सामाजिक या व्यक्तिमत जीवन को बेहतर इंग से प्रबंधित करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करना। ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देना एवं बेचना जो हमारे उपयोगकर्ताओं को लाभ दे

प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम की प्रति का निरीक्षण 160-बी, वेस्टर्न एवेन्यू सैनिक फार्म दिल्ली-110062 में रिधत कार्यालय में किया जा सकता है। एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी

व्यक्ति अपनी आपत्ति लिखित रूप में, हमारे पंजीकृत कार्यालय की एक प्रति सहित, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार, चौथा तल, ऑईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 को भेज देनांक : 06.07.2022

हस्ता / - आवेदक(कों) का नाम 1. आदेश कुमार गुप्ता

आरसीआई इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पंजी. कार्याः यूनिट नं. 421, चौथा तल, पर्ल ओमेक्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 CIN:L74900DL1992PLC047055, ई-मेल : compliance@rciind.com, वेबसाईट: www.rciind.com, टेली.: 011-27372194, फैक्स: 011-27371334

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के स्टैण्डएलॉन एवं समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश

31.03.2022 31.03.2021 (अंकेक्षित) (अंकेक्षित) 31.03.2022 31.03.2021 (अंकेक्षित) (अंकेक्षित) 31.03.2022 (अनंकेक्षित) 5,968.13 7,079.95 924.41 2.019.06 5,968.13 924.41 2,019.24 2.41 22.67 63.68 22.67 75.70 2.69 941.98 2,021.47 5,990.80 6,943.90 941.48 2,021.93 5,990.80 7,155.65 6.171.87 806.47 1,753.27 4,565.75 806.47 1,753.27 ख. व्यापार में भंडार में कर 150.84 189.74 151.05 397.16 557.41 2,580.07 2.580.07 428.56 1,202.81 घ. कर्मचारी लाभ व्यय 578.40 583.51 65.60 438.06 65.60 438.06 126.32 126.33 18.43 20.76 18.43 20.78 च. मल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय 1,127.57 287.37 1,127.57 1,246.65 287.37 271.77 273.37 1,258.91 2.588.23 6.777.94 2.542.00 13,403,79 5,900.00 4,491,48 8.458.26 4,448.01 4,323.51 8,631.60 13,223.70 16,168.87 4,277.28 11,191.78 13,180.22 23,021.34 कर, विशिष्ट मदों तथा अवधि पूर्व मदों से पूर्व लाभ/(हानि (3,381.52)(6,610.14)(3,335.80)(9,169.85)(15,865.69) (7,232.89)(9,224.97)(7,189.42)अवधि पर्व मद कर से पूर्व लाभ/(हानि) (7.232.89) (9.224.97) (7.189.42) (15.865.69) (3,381.52)(6,610.14)(3,335.80) (9,169.85) क. चालु कर (14.34)(14.34)(14.34)(110.31)(23.10)(170.37)(110.31)(23.10)(170.37)(15,695.32) (3,367.18) (7,209.79) (9,054.60) (3,321.45)(6,499.83)(9,059.54)(7,166.31)19.90 12.73 -183.26 (3,355.67)(6,494.22)(7,189.89)(9,043.41) (3,308.73)(9,037.99)(7,137.53)(15,878.58)1,567.64 1,567.64 1,567.64 1,567.64 1,567.64 1,567.64 1,567.64 1,567.64 मल (रु. में) (वार्षिकीकत नहीं तरल (रु. में) (वार्षिकीकृत नहीं) (41.46)

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा सिमित द्वारा की गयी और 5 जुलाई, 2022 को आयोजित उनकी सम्बद्ध बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित क गयी। सांविधिक लेखापरीक्षक ने उपर्युक्त परिणामों पर क्वालिफाइड विचार व्यक्त किये हैं। विस्तृत क्वालिफिकेशन तथा उस पर हमारी टिप्पणी इन परिणामों के साथ निर्धारित सेबी प्रारूप में संलग्न की गयी है। . उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल की गई 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित स्टैण्डएलॉन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित स्टैण्डएलोन तथा समेकित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचें

> निदेशक मण्डल के लिए तथा उसकी ओर कृते आरसीआई इण्डस्ट्रीज एण्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

नाम : मनीष प्रकाश पाण्डेय, प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

राजीव गुप्त DIN-00503190

चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक

बैंक ऑफ़ बड़ोदा Bank of Baroda

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 5.7.2022

(पता ८७१८, प्रथम तल, डीबी गुप्ता मार्ग, राम नगर, पहाइगंज, नई दिल्ली-110055, ईमेल- SAREDL@bankofbaroda.co.in)

शाखा : आर ओ एस ए आर बी, ईस्ट दिल्ली

अनुग्नक - A [ई-बिक्रय पोर्टल पर आयोजित नीलामी हेत् समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए संक्षिप्त बिक्री सूचना]

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेत् ई-नीलामी विक्रय नोटिस परिशिष्ट-IV-A [नियम 6(2) & 8(6) देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) & 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा

की वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.rciind.com पर उपलब्ध है।

प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन

आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ऑ) और गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का **कब्जा**, प्रतिभृत लेनदार के प्राधिकत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को प्रत्याभूत — दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से — प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेत नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ऑ) और गारंटर(रों) / प्रतिभृति आस्तियां / बकाया / आरक्षित मृत्य / ई—नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है

कब्जा ई-नीलामी की जमा धरोहर राशि निरीक्षण की स्थिति ज्ञात भार के साथ अचल संपत्ति का विवरण, कर्जदार्स / गारंटर्स / बंधककर्ताओं का तिथि / समय (ईएमडी) रु. की तिथि एवं कुल बकाया सं. यदि कोई हो (बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बंधक) रंचनात्मक नाम एवं पता . न्यूनतम बोली समय / भौतिक) वृद्धि राशि रु. भौतिक 1 मैसर्स सनराइज दूर्स (प्रोप. - अभिजीत साम्यिक बंधक द्वितीय तल बिना छत के अधिकार के, फ्री रु. 85,98,312.00 (रु. 25-07-2022 28.07.2022 होल्ड सम्पत्ति म्युनिसीपल नं. WZ-668/25-A (Old No. 18-A) का पिचासी लाख अट्ठान्वे हजार को पूर्वाइ 11.00 बजे र. 26,20,000/-को पूर्वाह कुमार पांडे, गारंटर श्री ललित कालरा, पता-चैंबर नं. 103-6/79, डब्ल्यूईए, गुरुद्वारा हिस्सा, क्षेत्रफल 66 वर्ग गज, खसरा नं. 40/1 और तीन सौ बारह मात्र) और से अपराइ 04.00 बजे 2 ईएमडी रु. 2,62,000.00 10.00 बजे से और 3. न्यूनतम बोली 41/5/3 में से, गाँव शकुरपुर, श्री नगर एक्सटेंशन, शकरपुर दिनांक 01.07.2019 से ब्याज अपराह्म 02.00 रोड, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005 वृद्धि राशि रु. 50,000.00 बजे तक बस्ती, दिल्ली-110034 में स्थित

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm & https://ibapi.in पर दिए गए लिंक को देखें। इच्छक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी, फोन नं. / मो.: 7275805187 से सम्पर्क करे।

दिनांक : 06-07-2022, स्थान : नई दिल्ली

こ ベリウットつ Escorts Kubota Limited

एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड

(पूर्व एस्कॉर्ट्स लिमिटेड) CIN: L74899HR1944PLC039088

पंजीकृत कार्यालयः 15/5, मथुरा रोड, फरीदाबाद-121003, हरियाणा

फोनः 0129-2250222 | फैक्सः 0129-2250060 | ई-मेलः corpsl@escorts.co.in | वेबसाइटः www.escortsgroup.com

पोस्टल बैलेट नोटिस व ई-वोटिंग सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 और 110 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार और सामान्य परिपन्न संख्या 14 / 2020 दिनांक ८ अप्रैल, २०२०, सामान्य परिपत्र संख्या १७/२०२० दिनांक १३ अप्रैल, २०२०, सामान्य परिपत्र संख्या २२/२०२० दिनांक १५ जून, २०२०, सामान्य परिपत्र संख्या ३३ / २०२० दिनांक २८ सितंबर, २०२०, सामान्य परिपत्र संख्या ३९ / २०२० दिनांक ३१ दिसंबर, २०२०, सामान्य परिपत्र संख्या 10 / 2021 दिनांक 23 जुन, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 20 / 2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021 और सामान्य परिपत्र संख्या 3 / 2022 दिनांक 05 मई, 2022 मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामले (एमसीए परिपत्र), विनियमन द्वारा जारी किया गया सेबी के 44 (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) और अन्य लागू कानून और विनियमों के अनुसार, पोस्टल बैलेट नोटिस (नोटिस) दिनांक 6 जुलाई, 2022 के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी ई-वोटिंग प्रक्रिया (ई-वोटिंग) के माध्यम से मांगी जा रही है ताकि नोटिस में बताए अनुसार बिजनेस किया जा सके। इस प्रकार, पोस्टल बैलेट फॉर्म के साथ नोटिस की हार्ड कॉपी और इस पोस्टल बैलेट के लिए शेयरधारकों को प्री—पेड बिजनेस रिप्लाई नहीं भेजा गया है।

एमसीए परिपत्रों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, नोटिस के साथ यूजर आईडी और पासवर्ड के विवरण बुधवार, 6 जुलाई, 2022 को कंपनी के रजिस्टार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (KFin) के माध्यम से ई-मेल द्वारा केवल उन सदस्यों को भेजे गए हैं, जिन्होंने कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार 1 जुलाई 2022 को अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत की है। वो व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि

के अनुसार सदस्य नहीं है, से अनुरोध है कि इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से माना जाए। संशोधित सूचीकरण विनियमों के विनियम 44 के अनुपालन में और धारा 108 और अन्य लागू प्रावधानों तथा संबंधित नियमों और एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम के अनुसार, कट—ऑफ तिथि पर शेयर रखने वाले सदस्य केवल ई—वोटिंग के माध्यम से वोट देने के हकदार हैं और वोटिंग अधिकारों की गणनाकट—ऑफ तिथि के अनुसार शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत इक्विटी शेयरों के प्रदत्त पूंजी मूल्य के आधार

पर की जाएगी। कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन की सेवाओं का लाभ उठाने का निर्णय लिया है। मतदान का तरीका डीमैटीरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्य और उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत

नहीं की है नोटिस में दिया गया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री जयंत गुप्ता, अभ्यासी कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस -7288 और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर

9738) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से केवल ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से डाक मतपत्र आयोजित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

पोस्टल बैलेट के परिणाम मंगलवार, 9 अगस्त, 2022 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे और इसे स्टॉक एक्सचेंज (एस), रजिस्टार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को सूचित किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट www.escortsgroup.com पर और केफिन की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर प्रदर्शित किया जाएगा।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

क. सदस्य द्वारा एक बार वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा

ख. वो व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि यानी 1 जुलाई, 2022 तक दर्ज है, केवलवही ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न और / या शिकायत के मामले में, सदस्य सहायता देख सकते हैं पूछे गए प्रश्न (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका, डाऊनलोड अनुभाग में उपलब्ध है https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx (KFin वेबसाइट) अथवा या श्री शंकर गोकवरापु, प्रबंधक (इकाई: एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड), केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, गाचीबोवली, जिला, नानकरंगुडा, हैदराबाद – 500032; टोल फ्री नंबर: 1800 309 4001; ई-मेल: einward.ris@kfintech.com पर किसी भी स्पष्टीकरण के लिए संपर्क करें।
- II. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने आरटीए के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, वे http://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर क्लिक करके या कंपनी की वेबसाइट https://www.escortsgroup.com/investors/usefull-links/forms.html पर उपलब्ध फॉर्म ISR-1 और फोलियो नंबर के विवरण के साथ अन्य आवश्यकफॉर्म जमा करके इसे पंजीकृत / अपडेट करने का अनुरोध किया जाता है।
- III. पोस्टल बैलेट नोटिस को कंपनी की वेबसाइट https://www.escortsgroup.com/investors/overview.html से अथवा केफिन की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/public/ballotform.aspx से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग प्रक्रियाओं के लिए नोटिस देखें और निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान दें:

क्र.संख्या विवरण अनुसूची पोस्टल बैलेट नोटिस के प्रेषण की समाप्ति की तिथि बुधवार, 6 जुलाई, 2022 中. ख. रिमोट ई-वोटिंगः इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान शुरू होने की तिथि और समय गुरुवार, 7 जुलाई 2022/09:00 पूर्वाहन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान समाप्त होने की तिथि और समय शुक्रवार, 5 अगस्त 2022 / 05:00 अपराहन ऊपर उल्लिखित तिथि और समय के बाद मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी

बोर्ड के आदेश से एस्कॉट्र्स कुबोटा लिमिटेड के लिए

एसडी / – सत्येंद्र चौहान कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

'सकारात्मक सोच के जनसत्ता क्लासीफाइड

सार्वजनिक सचना

RAHUL GAUTAM S/O DHARMPAL GAUTAM residing at H. NO.- E-86 GALI NO.-13. AMBEDKAR VIHAR JOHARIPUR, GOKAL PUR, NORTH EAST DELHI, DELHI-110094 declare that name of my father has beer wrongly written as DHARM PAL GAUTAM in my 12th class Markshee and certificate. DHARAM PAL GAUTAM in my Caste Certificate No. SC/04/42/14420/8/7/2009 9420112187/9124 and DHARAM PA SINGH in my Driving License No. DL0520110154044 and DHARAMPAL GAUTAM in my B.A. Degree. The actual name of my father

PUBLIC NOTICE Property No. 17, (135 sq. mtrs.), Block-B, Sector-20, Noida, Distt.

DHARMPAL GAUTAM which may be

mended accordingly.

Gautam Budh Nagar, (U.P) My client ICICI Bank Ltd, Sector-50, Noida, U.P. is in the process of advancing a loan to Mr. Ravi Goyal for purchase of Property No. 17, (135 sq. mtrs.), Block-B Sector-20, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar, (U.P) from Mrs. Sima Devi Bhhattacharya who has represented that she is the owner of the said Property being class-I legal heir of late Mr. Nirmal Kumar Bhattacharya, who was co-owner of the said Property alongwith Mrs. Sima Devi Bhhattacharya vide Transfer Deed dated 30.03.1994 (Doc. No. 1438/1439). Original Allotment Letter dated 13.01.1981,

Original Possession Letter dated 01.04.1982 & Original Lease Deed dated 29.03.1982 (Doc. No. 1291/1292) in respect of the said Property have been lost and a complaint dated 10.06.2022 regarding the same has been lodged with Bidhannagar Police Commissionerate, West Bengal If anybody, person, body corporate has any right, lien or claim in respect of the ownership or on the basis of lost documents or otherwise, whatsoever on the said Property or objection to its sale or mortgage, then he/she/it may contact the undersigned with documentary proof of claim within 15 days of publication of this notice, otherwise it shall be deemed that either there are no claims or the same have been waived off. No claim shall be entertained thereafter and my client shall proceed to advance the loan by mortgaging the said

property. Prachi Narang, Advocate **GNA & Associates** D-28, Jangpura Extension, New Delhi-110014. प्ररूप संख्या आईएनसी-26 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

बिज बीर प्रॉपर्टीज प्राइबेट लिमिटेड जिसका पंजीकत कार्यालय: बी-16, प्रथम तल. साउथ एक्सटें शन, पार्ट—1, नई दिल्ली—110049.

में हैं, के मामले में तदद्वारा सार्वजनिक सुचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है. जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में ख्यानांतरित करने के लिए 31 मई, 2022 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से वौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उनके

पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजें । विज बीर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के लिए दिनांक: 06.07.2022 स्थान: नई दिल्ली कुल भूषण सरोगी (निदेशक) कीआईएन: 00345945 बीआईएन: 00345945

प्ररूप संख्या आईएनसी-25ए पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

उत्तरी क्षेत्र के समक्ष, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में और

अर्लिग्टन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड (CIN: U17111DL1990PLC040582) जिसका पंजीकत कार्यालय: 48 मनोहर बाजार कटरा नील,चांदनी चौक, दिल्ली-110006 में स्थित है, के मामले में

एतदहारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 08 जून, 2022 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित करने की इच्छक है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति के कारण यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति, इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए, जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, इस सुचना के छपने के चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली– 110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कंपनी को पंजीकत पते 48 मनोहर बाजार कटरा नील, वांदनी चौक, दिल्ली-110006 में भी भेज दे।

कते अर्लिग्टन स्पिनिंग एंड बीविंग मिल्स लिमिटेड तिथि: 06.07.2022 रमेश बंद कौशिक (निदेशक) डीआईएन:00477751

> MAAN मान एल्युमिनियम लिमिटेड

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉपोरेशन लिमिटेड यनिट 203 और 204, दूसरी मंजिल, "ए" विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुंबई 400015, महाराष्ट्र सीआईएन नंबर: U65922MH2005PLC272501

प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

चूंकि, वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, अपने प्रधान कार्यालय-मुंबई के माध्यम से नोटिस जारी किया है कि. निम्नलिखित उधारकर्ताओं / गारंटरों / गिरवीदारों ने मूलधन के पुनर्भुगतान और वीएचएफसीएल से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के ब्याज के भृगतान में चुक किया है और उक्त सुविधाएं गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों के रूप में परिवर्तित हो गयी है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किए गए थे, हालांकि वे बिना तामील किए वापस आ गए हैं और अब उन्हें इस बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

ऋण खाता सं.	सूचना की तिथि और राशि	विवरण
रेखा (आवेदक), विशाल कुमार (सह आवेदक), मोनू सोडाई (सह आवेदक) HL000000000043680	22—06—2022/ 05—06—2022 के अनुसार रु.1971811/-	खसरा नं. 528मिन, गांव मोहनपुरा मोहम्मदपुरा,परगना रुड़की, फाटक के पास, हरिद्वार, उत्तराखंड—247667 का हिस्सा। उत्तर—मार्ग 14 फीट चौड़ा, दक्षिण — अन्य व्यक्ति की संपत्ति, पूर्व —अनीता अग्रवाल की संपत्ति, पश्चिम — श्रीलाल सिंह की संपत्ति।
गुड्डू कुमार (आवेदक), माया देवी (सह–आवेदक) HL00000000043690	22—06—2022/ 05—06—2022 के अनुसार रु. 866744/—	प्लॉट नं. 17 खसरा नं. 492, अम्हेरा आदिपुर, परगना मेरठ, उत्तर प्रदेश 250001। उत्तर—पावर हाउस, दक्षिण—20 फीट सड़क, पूर्व—प्लॉट नंबर 16, पश्चिम — अन्य संपत्ति

नोटिस को वैकल्पिक माध्यमों से तामील कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं और/या उनके गारंटरों (जहां भी लागू हो) को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया का भूगतान करें, ऐसा न करने पर वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान के अनुसार इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्रवाई

कृपया ध्यान दें कि उक्त नोटिस धारा 13(13) के तहत उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधकदारों को यह भी सूचित करता है कि उक्त गिरवी रखी गई संपत्ति को विक्रय /पट्टे पर/हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए।

दिनांकः 07.07.2022 प्राधिकृत अधिकारी, वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थानः हरिद्वार/मेरठ

फॉर्म ए सार्वजनिक उदघोषणा (भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियम 6 के अंतर्गत)

(कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016)

	रिलाएबल फाइनेंस कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ					
	प्रासंगिक	5 विवरण				
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	रिलाएबल फाइनेंस कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड				
2.	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	28.03.1956				
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार– दिल्ली				
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या	U74999DL1956PTC002640				
5.	कॉर्पोरेट देनदारों के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः 106, टी–10 मेन पटेल रोड, गुरुअर्जुन नगर, शादी खामपुर, नई दिल्ली–110008				
6.	कॉरपोरेट देनदार के संबंध में दिवाला प्रारंभ होने की तिथि	04.07.2022 (आदेश 05.07.2022 को आईआरपी को प्राप्त हुआ था)				
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया के बंद होने की अनुमानित तिथि	31.12.2022 यानी समाधान शुरुआत होने की तिथि से 180 दिन				
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	मोहम्मद नाजिम खान पंजी. सं IBBI/IPA-002/IP-N00076/2017-18/10207				
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृत अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ई-मेल	पताः एमएनके एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी, जी–41, भूतल , वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली–110008 ई–मेल : nazim@mnkassociates.com				
10	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई—मेल	पताः एमएनके एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी, जी–41, भूतल , वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली–110008 ई–मेल : nazim@mnkassociates.com, cirp.reliablefinance@gmail.com				
11	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	08.07.2022				
12	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा सुनिश्चित धारा 21 की उप–धारा (६ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों के वर्ग, यदि कोई हो,	इस स्तर पर लेनदार का कोई वर्ग निर्धारित नहीं किया जा सका				

(ख) कॉलम 13 के दुष्टिगत लागू नहीं (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध हैः एतद्दवारा सूचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली, बेंच-VI ने 04.07.2022 को रिलाएबल फाइनेंस कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शरू करने का आदेश दिया है। रिलाएबल फाइनेंस कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को एतद्दवारा प्रविष्टि संख्या 10 के सामने उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को 18.07.2022 को या उससे पहले सबूत के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। वित्तीय लेनदारों को अपने दावों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रविष्टि संख्या 12 के सामने सूचीबद्ध अनुसार एक वर्ग से संबंधित एक वित्तीय लेनदार, प्रपत्र सीए में वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए

3 ऋणशोधन अक्षमता पेशेवरों के नाम जिन्हें एक वर्ग में ऋणदाताओं के

14 (क) प्रासंगिक प्रपत्र और

www.readwhere.com

अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चिह्नित किया गया है।

इस स्तर पर लेनदार का कोई वर्ग निर्धारित नहीं किया जा सका

(क) वेबलिंकः : https://www.ibbi.gov.in/home/download

नतीजतन कोई अधिकृत प्रतिनिधि प्रस्तावित नहीं है।

प्रविष्टि संख्या 13 के सामने सूचीबद्ध तीन दिवाला पेशेवरों में से अधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद का संकेत देगा। दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा। मोहम्मद नाजिम खान दिनांकः 06.07. 2022 अंतरिम समाधान पेशेव आईपी पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-002/IP-N00076/2017-18/10207

पंजीकृत कार्यालय : 4/5, प्रथम तल, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 सीआईएन : L30007DL2003PLC214485, दूरभाष : 40081800, ई-मेल : info@maanaluminium.in / वेबसाइट : www.maanaluminium.com 19वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा बक क्लोजर की सचना

एतद्वारा सचित किया जाता है कि बैठक की सचना तिथि 20 मई, 2022 में उल्लिखित प्रकार के लेन-देन के लिए मान एल्यमीनियम लिमिटेड के सदस्यों की 19वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्अल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम रं सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 तथ 02/2022 तथा कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय (''एमसीए'') तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्गत अन्य सभी प्रयोज्य कानूनों एवं परिपत्रों के अनुसार शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 को 3.00 बजे अप. में आयोजित की जायेगी।

(क) उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2020-2 सिहत एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन शेयरधारकों को भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते कम्पनी/आरटीए/एनएसडीएल/सीडीएसएल (''डिपॉजिटरी'') के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य यह भी ध्यान दें कि सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 कम्पनी की वेबसाइट www.maanaluminium.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर तथा लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा.लि. की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध हैं।

सदस्यों को पुनः सूचित किया जाता है कि : (ख) कम्पनी वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने का कार्य 6 जुलाई, 2022 को (ग) सूचना भेजने के उद्देश्य हेतु 24 जून, 2022 तक भौतिक या अभौतिक प्रारूप में शेयर

धारण करने वाले कम्पनी के शेयरधारकों पर विचार किया गया है। (घ) एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष प्रकार्यों का लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक (ङ) कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 (लागु विधिक संशोधन(नों)

स्पष्टीकरण(णों), छूट(टों) अथवा पुनः क्रियान्वयन(नों) सहित) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के सन्दर्भ में कम्पनी एजीएम में पारित किये जाने वाले संकल्पों पर अपना मतदान करने हेतु अपने सभी सदस्यों को सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित संकल्पों पर अपना मतदान कर सकते हैं जिसके लिए कम्पनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड की सेवा

ग्रहण की हैं। च) जिन सदस्यों के नाम 22 जुलाई, 2022 (''कट-ऑफ तिथि'') तक सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरी द्वारा प्राप्त लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं वे इस सूचना मे उल्लिखित संकल्पों पर मतदान करने के पात्र हैं। जो व्यक्ति कथित तिथि तक सदस्य नहीं है वह इस सूचना को केवल सूचना के रूप में ग्रहण करे।

छ) ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 26 जुलाई, 2022 को 9.00 बजे प्रातः प्रारम्भ होगी और बहस्पतिवार, 28 जलाई, 2022 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगी। कथित अवधि के दौरान भौतिक या अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कम्पनी के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके पश्चात ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जायेगा। (ज) जो शेयरधारक/सदस्य इंस्टामीट सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित

होंगे और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से जिन्होंने संकल्प पर मतदान नहीं किया है तथा उन्हें ऐसा करने से अन्यथा वंचित नहीं किया गया है वे बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। जिन शेयरधारकों/सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर लिया है वे इंस्टामीट के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने/भाग लेने के पात्र होंगे। हालाँकि वे बैठक के दौरान मतदान करने के पात्र नहीं होंगे। (झ) रिमोट ई-वोटिंग मतदान करने की रीति का विवरण 19वीं एजीएम की सचना के

परिशिष्ट में उपलब्ध है जिसे कम्पनी की वेबसाइट www.maanaluminium.com पर भी पोस्ट किया गया है और लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट htips://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है। (ञ) ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी पछताछ के लिए आप https://instavote.linkintime.co.in के हेल्प खण्ड में उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स ('एफएक्यू')

कर सकते हैं।

तथा इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल का सन्दर्भ ले सकते हैं अथवा enotices@linkintime.co.in पर ई-मेल लिख सकते हैं या हमें दूरभाष 022-49186000 पर कॉल

एतद्वारा यह सूचना भी दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कम्पर्न (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2015 के नियम 10 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ शनिवार, 23 जुलाई, 2022 से शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी। परिणामों की घोषणा एजीएम की समाप्ति से अधिकतम अड़तालीस घण्टों के भीतर कर दी जायेगी। संवीक्षक की रिपोर्ट जमा होने पर बैठक में मतदान तथा ई-वोटिंग के परिणाम घोषित किये जायेंगे। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.maanaluminium.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bselimited.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध होंगे। परिणाम संवीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात घोषित किये जायेंगे।

> कृते मान एल्युमीनियम लिमिटेड रविन्दर नाथ जैन चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक

बोर्ड के आदेशानुसार

स्थान : दिल्ली तिथि : 07.07.2022



स्थानः फरीदाबाद

दिनांकः ६ जुलाई, २०२२



